

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16122024-259442
SG-DL-E-16122024-259442xxxGIDHxxx
xxxGIDExxxअसाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/अग्रहायण 25, 1946 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 293
No. 326] DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/AGRAHAYANA 25, 1946 [N. C. T. D. No. 293

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग,

अधिसूचना

दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

फा. सं. 53/700/2024/सा0प्रशा0वि0/समन्वय/2291.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1993 के नियम - 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुख्यमंत्री दिल्ली के परामर्श से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों को निम्नलिखित कार्य आवंटित करते हैं। यह आवंटन स्वीकृत किया जाता है, जहाँ तक कि, संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अधीन उप-राज्यपाल को उनको कार्यों के निर्वहन के लिए मंत्री-परिषद् के द्वारा सहायता और सलाह देना अपेक्षित है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1993 के नियम 3 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार है। तदनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पोर्टफोलियो इस प्रकार हैं :—

क्र.सं.	मंत्रियों के नाम	पोर्टफोलियो
1	सुश्री आतिशी, मुख्यमंत्री	1 लोक निर्माण विभाग 2 ऊर्जा 3 शिक्षा 4 उच्च शिक्षा

		5 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा 6 जन सम्पर्क विभाग 7 राजस्व 8 वित्त 9 योजना 10 जल 11 विधि न्याय एवं विधायी कार्य 12 परिवहन 13 सूचना एवं प्रौद्योगिकी 14 गृह 15 महिला एवं बाल विकास एवं वे पोर्टफोलियो जो अन्य किसी मंत्री को आवंटित नहीं किये गये हैं।
2	श्री सौरभ भारद्वाज	1 शहरी विकास 2 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 3 स्वास्थ्य 4 उद्योग 5 कला, संस्कृति एवं भाषा 6 पर्यटन 7 समाज कल्याण 8 सहकारिता
3	श्री गोपाल राय	1 विकास 2 सामान्य प्रशासन विभाग 3 पर्यावरण, वन तथा वन्य जंतु विभाग
4	श्री इमरान हुसैन	1 खाद्य एवं आपूर्ति 2 चुनाव
5	श्री मुकेश अहलावत	1 गुरुद्वारा चुनाव 2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 3 भूमि एवं भवन 4 श्रम 5 रोजगार
6	श्री रघुविंद्र शौकीन	1 प्रशासनिक सुधार 2 सेवाएं 3 सतर्कता विभाग

यह अधिसूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों के पोर्टफोलियो के आवंटन सम्बंधित सभी पिछली अधिसूचनाओं को प्रतिस्थापित करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

भास्कर प्रियदर्शी, अनुभाग अधिकारी

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th December, 2024

F. No. 53/700/2024/GAD/CN/2291.—In exercise of powers conferred under Rule 3 of the Government of National Capital Territory of Delhi (Allocation of Business) Rules 1993, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Chief Minister, is pleased to allocate the following portfolios to the Ministers of the National Capital Territory of Delhi. The allocation of business to the Ministers is approved, in so far as, such business relates to matters with respect to which the Council of Ministers is required under Article 239AA of the Constitution to aid and advise the Lieutenant Governor in the exercise of his functions, in accordance with Rule 3 of the GNCTD (Allocation of Business) Rules, 1993 and subject to The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023. Accordingly, portfolios of the Ministers of the National Capital Territory of Delhi are as follows: —

S. No.	Name of the Council of Ministers	Portfolios
1.	Ms. Atishi, Chief Minister.	1. Public Works Department 2. Power 3. Education 4. Higher Education 5. Training & Technical Education 6. Public Relations Department 7. Revenue 8. Finance 9. Planning 10. Water 11. Law, Justice and Legislative Affairs 12. Transport 13. Information & Technology 14. Home 15. Women and Child Development and all other portfolios not specifically allocated to any Minister.
2.	Sh. Saurabh Bharadwaj	1. Urban Development 2. Irrigation and Flood Control 3. Health 4. Industries 5. Art, Culture & Language 6. Tourism 7. Social Welfare 8. Cooperative
3.	Sh. Gopal Rai	1. Development 2. General Administration Department 3. Environment, Forest and Wild Life
4.	Sh. Imran Hussain	1. Food & Supply 2. Election
5.	Sh. Mukesh Ahlawat	1. Gurudwara Elections 2. SC & ST 3. Land & Building 4. Labour 5. Employment

6.	Sh. Raghuvinder Shokeen	1. Administrative Reforms 2. Services 3. Vigilance
----	-------------------------	--

This notification supersedes all the previous notifications regarding allocation of portfolios to Ministers of the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
BHASKAR PRIYADARSHI, Section Officer